

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

20 अगस्त 2019

**एजेके एमसीआरसी , जामिया ने मनाया विश्व फोटोग्राफी दिवस-2019**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर :एमसीआरसी: ने, विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर सोमवार को एक वर्कशाॅप का आयोजन किया।

इस जाने-माने सेंटर के फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन के कोआर्डिनेटर, प्रो फरहत बसीर खान ने, विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर एक हफ्ते तक चलने वाले वैश्विक समारोह के तहत, इस वर्कशाॅप का आयोजन किया था। इस वर्कशाॅप में विभिन्न विभागों के छात्रों ने हिस्सा लिया।

प्रो बसीर ने इस मौके पर कहा कि वर्कशाॅप का एक अहम हिस्सा, फोटोग्राफी के “ मिनमलइज़म “ को समझना था। इसमें उन चीज़ों को फ्रेम से बाहर रखा जाता है, जिसकी उस खास फोटोग्राफ में ज़रूरत नहीं हो।

उन्होंने फोटोग्राफी के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि वक़्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आती रही है और अब एनलाॅग की जगह डिजिटल फोटोग्राफी ले रही है। इंटरनेट ने तस्वीरों की ताक़त को और बढ़ा दिया है, जिसके चलते फोटोग्राफर, अपनी फोटोग्राफी को और ज़्यादा रचनात्मक और प्रभावी बना रहे हैं।

वर्कशाॅप में हिस्सा लेने वाले छात्रों से प्रो बसीर ने उम्मीद जताई कि वे अब से मिनमलइज़म प्रोजेक्ट के साथ प्रयोग करते हुए तस्वीरें उतारने में मिनमलइज़म ..एलिमेंट्स, आॅर्गेनाइज़ेशन, फ्रेमिंग, लाइट एंड थॉट जैसे पांच खास तत्वों पर तवज्जो देंगे।

इस वर्कशाॅप में फोटोग्राफी से उपकरणों के निर्माण से जुड़ी, प्रमुख कंपनियों ने फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले नवीनतम उपकरणों को दर्शाया और उनके बारे में जानकारी दी। इसका मक़सद, संबंधित शैक्षणिक समुदाय और उद्योग के बीच रिश्तों को मज़बूत करना था।

**अहमद अज़ीम**

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक